

SIL INVESTMENTS LIMITED

CIN NO : L17301RJ1934PLC002761

Regd. Office: Pachphar Road, Bhawanimandi 326 502(Raj.)

Ph:(07433)222082 Fax:(07433) 222916; Website: www.silinvestments.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 12<sup>th</sup> November, 2020 inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2020.

For SIL Investments Limited

Place: Mumbai

Dated: 30<sup>th</sup> October, 2020

Lokesh Gandhi

Company Secretary & Compliance Officer

MAX Healthcare

MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED

CIN: U72200MH2001PLC322854

Regd. Office: 401, 4th Floor, Man Excellenza, S. V. Road, Vile Parle West, Mumbai, Maharashtra-400056

Email: investors@maxhealthcare.com

Website: www.maxhealthcare.in

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable Regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of Board of Directors of Max Healthcare Institute Limited shall be held on Wednesday, November 11, 2020, inter alia, to consider and approve the Unaudited (Standalone and Consolidated) Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020.

This intimation is also available on the website of the Company at [www.maxhealthcare.in](http://www.maxhealthcare.in) and on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For Max Healthcare Institute Limited

Sd/

Date: October 31, 2020

Place: Gurugram (Haryana)

Ruchi Mahajan

Company Secretary & Compliance Officer

ENKEI

Enkei Wheels (India) Limited

Regd. Office : Gat 1425, Village Shikrapur, Tal. Shirur, Pune - 412 208.

Tel No. : (02137) - 618700 Fax No.: (02137) - 618720

Email: [secretarial@enkei.in](mailto:secretarial@enkei.in) Website : [www.enkei.in](http://www.enkei.in)

CIN: L34300PN2009PLC133702

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED AS ON 30TH SEPTEMBER 2020 (Rs. In Million)

Sr. No	Particulars	Standaone Results			
		Quarter Ended	Nine months Ended	Year Ended	
		30-Sep-20	30-Jun-20	30-Sep-20	31-Dec-2019 (9M)
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (Net)	761.66	110.60	1,547.96	2,670.63
2	Net Profit/(Loss) for the Period (before Tax, Exceptional and /or Exrodinary Items)	(34.58)	(173.69)	(351.79)	(265.76)
3	Net Profit/(Loss) for the Period before Tax (after Exceptional & Exrodinary Items)	(34.58)	(173.69)	(351.79)	(265.76)
4	Net Profit/(Loss) for the Period after Tax (after Exceptional & Exrodinary Items)	(28.98)	(172.77)	(334.22)	27.25
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period(after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(25.59)	(173.88)	(331.17)	14.68
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.5/- each)	---	---	---	85.38
7	Total Reserves (excluding Revaluation Reserve)	---	---	---	1,746.67
8	Basic and Diluted Earnings Per Share (of Rs.5/- each)				
	(i) Basic :	(1.64)	(10.12)	(19.34)	1.61
	(ii) Diluted :	(1.64)	(10.12)	(19.34)	1.61

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended September 30th, 2020 filed with BSE Ltd. Under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the said quarter are available on the website of BSE Ltd. at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and company's website at [www.enkei.in](http://www.enkei.in).

2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on October 29th, 2020.

For Enkei Wheels (India) Limited

Sd/-

Kazuo Suzuki

Managing Director

DIN : 08350372

Place: Shikrapur, Pune

Date : October 29<sup>th</sup>, 2020

EsseL MUTUAL FUND

ESSEL FINANCE AMC LIMITED

Registered Office:

Peerless Mansion, 1, Chowringhee Square, Kolkata-700069

Tel: 033 40185000; Fax: 033 40185010; Toll free no.: 1800 103 8999,

Website: <https://mutualfund.esselfinance.com>, Email: [mutualfund@esselfinance.com](mailto:mutualfund@esselfinance.com)

CIN: U65990WB2009PLC134537

NOTICE (No. 15 of 2020-2021)

HOSTING OF UNAUDITED HALF YEARLY FINANCIALS RESULTS:

NOTICE is hereby given to all unit holders of Essel Mutual Fund ('Fund') that in accordance with Regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular No. CIR/IMD/DF/21/2012 dated September 13, 2012 and SEBI (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide Notification dated September 26, 2012, the Unaudited Half Yearly Financial Results of all the Scheme(s) of the Fund for the half year ended September 30, 2020, is hosted on the website of Essel Finance AMC Limited ("the AMC") viz. <https://mutualfund.esselfinance.com> and on the website of AMFI viz. [www.amfiindia.com](http://www.amfiindia.com) in a user-friendly and downloadable format on October 30, 2020.

For Essel Finance AMC Limited

(Investment Manager to Essel Mutual Fund)

Sd/-

Place : Mumbai

Date : October 30, 2020

Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

PearlGlobal

PEARL GLOBAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74899DL1989PLC036849

Registered Office: A-3, Community Centre, Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110028

Corporate Office: Plot No. 51, Sector-32, Gurugram-122001 (Haryana)

Tel: 0124-4651000; E-mail: [investor.pgil@pearlglobal.com](mailto:investor.pgil@pearlglobal.com);

Website: [www.pearlglobal.com](http://www.pearlglobal.com)

NOTICE OF 31<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

1. The 31st Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Thursday, November 26, 2020 at 11:30 AM through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), in terms of Circular dated May 05, 2020 read with Circular dated April 08, 2020 and April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.

In accordance with MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, Notice of AGM alongwith the Annual Report for the financial year 2019-20, Inter-alia including the e-voting instructions has been e-mailed on October 30, 2020 to the Members, whose e-mail address are registered with the Company or with the Depository Participants. These documents can be downloaded from the website of the Company [www.pearlglobal.com](http://www.pearlglobal.com), website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively and also on the website of Link Intime India Private Limited at [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in).

2. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and MCA Circulars, the company is providing remote e-voting facility and e-voting at AGM through Link Intime India Private Limited.

3. The e-voting facility is being provided to the Members whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date i.e. Thursday, November 19, 2020 to exercise their right to vote by using remote e-voting and e-voting at the AGM on any or all of the business specified in the Notice of AGM. Detailed instructions for remote e-voting facility and e-voting at AGM are mentioned in the Notice of AGM at Note No. 20 and 21, respectively.

4. Date and time of commencement and ending of E-voting:

Commencement : Monday, November 23, 2020 (09.00 AM)

Ending : Wednesday, November 25, 2020 (05.00 PM)

5. The e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 PM on Wednesday, November 25, 2020, once the vote on a resolution is cast by the member, he/she/it shall not be allowed to change it subsequently.

6. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM, but are not entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.

7. Any person who have acquired shares and become members of the Company after sending Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Thursday, November 19, 2020, may cast their votes by following the instructions of remote e-voting and e-voting at AGM as mentioned in the Notice of AGM.

8. In case of queries, the Members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available at the download section of <https://instavote.linkintime.co.in> or call on toll free no: 022-4918 6000 or send a request to [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in). In case of any grievances connected with facility for e-voting, please contact Mr. Rajiv Ranjan, Asst. Vice President-Link Intime India Private Limited at [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in), 022-4918 6000 or Members may write to the Company Secretary at [investor.pgil@pearlglobal.com](mailto:investor.pgil@pearlglobal.com).

For Pearl Global Industries Limited

Sd/-

Place: Gurugram

Date : October 30, 2020

Sandeep Sabharwal

(Company Secretary)

Sequent

Proven Ability In Life Sciences

SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED

CIN : L99999MH1985PLC036685

Registered Office : 301, 3<sup>rd</sup> Floor, 'Dosti Pinnacle', Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604, Maharashtra. Tel.: +91 22 41114777

Email: [investorrelations@sequent.in](mailto:investorrelations@sequent.in)

Website : [www.sequent.in](http://www.sequent.in)

NOTICE

Pursuant to the provisions of Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, November 6, 2020, inter-alia, to consider and approve the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020.

The said Notice is also available on the website of the Company at [www.sequent.in](http://www.sequent.in) and on the website of Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

By Order of the Board

Sequent Scientific Limited

Sd/-

Krunal Shah

Company Secretary

Place: Thane

Date : October 30, 2020

IFB AGRO INDUSTRIES LIMITED

CIN: L01409WB1982PLC034590

Regd. Office:

Plot No.-IND-5, Sector-I, East Calcutta Township, Kolkata-700107

Ph: 033-39849675, Fax: 033-2442-1003

Email: [complianceifbagro@ifbglobal.com](mailto:complianceifbagro@ifbglobal.com)

Website: [www.ifbagro.in](http://www.ifbagro.in)

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of IFB Agro Industries Limited will be held on Saturday, the 31st October, 2020 to consider and take on record the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020 beside other matters.

The information contained in this notice is also available on the Company's website [www.ifbagro.in](http://www.ifbagro.in) and also on the website of Stock Exchanges viz. Bombay Stock Exchange Ltd - [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd - [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For IFB Agro Industries Limited

(Ritesh Agarwal)

Company Secretary

Place : Kolkata

Date: 26.10.2020

Weekend Business Standard

MUMBAI EDITION

Printed and Published by Sangita Kheora on behalf of Business Standard Private Limited and Printed at M/s. Dangat Media Private Limited, 22 Digha M.I.D.C., TTC Industrial Area, Vishnu Nagar, Digha, Navi Mumbai, 400708 and M/s. Nai Dunia 23/4, 23/5, Sector-D, Industrial Area, J.K. Road, Near Minal Residency, Bhopal (M.P)-462023. & Published at H/4 & I/3, Building H, Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400013

E-mail: [subs.bs@bsmail.in](mailto:subs.bs@bsmail.in) "or sms, SUB BS to 57007"

Overseas subscription: (Mumbai Edition Only)

One year subscription rate by air mail INR 51755 : USD 725

DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement.

Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned.

Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction, transmission or dissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and criminal liabilities.

No Air Surcharge

Going beyond Commitment,

SUVEN PHARMA

SUVEN PHARMACEUTICALS LIMITED

Registered Office: # 8-2-334 I SDE Serene Chambers I 3rd Floor I Road No.5 I Avenue 7 I Banjara Hills Hyderabad - 500034 I Telangana I India. Tel: 91 40 2354 9414 / 3311 / 3315 Fax: 91 40 2354 1152

CIN: L24299TG2018PLC128171 email: [investorservices@suvphenpharm.com](mailto:investorservices@suvphenpharm.com) website: [www.suvphenpharm.com](http://www.suvphenpharm.com)

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & SIX MONTHS ENDED 30th SEPTEMBER, 2020 (₹ in Lakhs)

Sl No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Qtr Ended 30/09/2020	Year to date figures for the period ended 30/09/2020	Qtr Ended 30/09/2019	Qtr Ended 30/09/2020	Year to date figures for the period ended 30/09/2020	Qtr Ended 30/09/2019
		Un-Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
1	Total income from operations	23738.81	47562.05	27292.76	23738.81	47562.05	27292.76
2	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	8808.70	19566.39	12140.51	9683.60	21470.45	12097.23
3	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	8808.70	19566.39	12140.51	9683.60	21470.45	12449.42
4	Net profit for the period After tax (after exceptional and/or extraordinary items)	6533.00	14656.00	8991.58	7407.90	16560.06	9300.48
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	6512.56	14615.11	8988.83	7387.46	16519.17	9297.73
6	Equity share capital	2545.65	2545.65	1272.82	2545.65	2545.65	1272.82
7	Other Equity (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited balance sheet.		77010.16			83203.45	
8	Earning Per Share (EPS) (Face value of Rs.1/- each):						
	1. Basic:	2.57	5.76	3.53	2.91	6.51	3.65
	2. Diluted:	2.57	5.76	3.53	2.91	6.51	3.65
		(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)

Notes:

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the websites of the stock exchanges(s) ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and company's website [www.suvphenpharm.com](http://www.suvphenpharm.com).

For SUVEN PHARMACEUTICALS LTD

VENKAT JASTI

Chairman & MD

DIN: 00278028

WE DELIVER.

Place : Hyderabad

Date : 30th October, 2020

ZEEMEDIA

ZEE MEDIA CORPORATION LIMITED

CIN: L92100MH1999PLC121506

Regd. Off.: 14th Floor, 'A' Wing, Marathon Futurex, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

[www.zeenews.india.com](http://www.zeenews.india.com)

Financial Results for the quarter ended on 30 June, 2020 (₹ / Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended on		Year ended on	Quarter ended on		Year ended on
		30-Jun-20	30-Jun-19	31-Mar-20	30-Jun-20	30-Jun-19	31-Mar-20
1	Total Income from operations*	11,445	17,881	55,934	13,214	20,066	63,175
2	Net profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	923	3,199	5,849	1,638	3,937	8,219
3	Net profit/(Loss) for the period before tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	923	3,199	(26,704)	1,638	3,937	(24,334)
4	Net profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	690	2,078	(28,851)	1,226	2,607	(27,112)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	650	1,986	(28,997)	1,179	2,500	(27,272)
6	Equity Share Capital	4,708	4,708	4,708	4,708	4,708	4,708
7	Other equity (excluding revaluation reserves)	-	-	28,569	-	-	31,780
8	Earning Per Share (of ₹ 1/- each) (not annualised)						
	- Basic (₹)	0.15	0.44	(6.13)	0.26	0.55	(5.76)
	- Diluted (₹)	0.15	0.44	(6.13)	0.26	0.55	(5.76)

\* Excludes other income

Notes :

1. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed by the Company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the unaudited financial results is available on the Stock Exchange websites ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and also on the Company's website [www.zeenews.india.com](http://www.zeenews.india.com).

2. This financial statement has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS), the provisions of the Companies Act, 2013 (the Act), as applicable and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

For Zee Media Corporation Limited

Sd/-

Dinesh Kumar Garg

Executive Director - Finance and CFO

DIN: 02048097

Place: Noida

Date: 30th October, 2020

